



*First Class*





TAKE A TRIP THROUGH INDIA AND  
GET SWEEPED OFF YOUR FEET BY ITS RICH VARIETY.  
BE IT ITS HISTORY, CULTURE, THE ARTS OR CUISINE,  
ITS SHEER MULTITUDE OF OFFERINGS WILL SURELY  
LEAVE YOU WITH A LASTING FLAVOUR, BUT SURELY,  
IT IS INDIA'S DANCE FORMS, CLASSICAL AND FOLK,

THAT UNIFY HER VERY ESSENCE. BE IT THE  
GENTLE MANIPURI FROM THE EAST OR THE  
VIBRANT KATHAKALI FROM THE SOUTH,  
THE ROYAL KATHAK FROM THE NORTH,  
OR THE EVOCATIVE LAVNI FROM THE WEST,


ALL OF INDIA'S DANCE FORMS CUT ACROSS ALL

BARRIERS, FOR EACH IS NOTHING  
SHORT OF SHEER POETRY IN MOTION,  
AND JUST AS EACH DIFFERS IN FORM  
AND CONTENT WHILE RETAINING THE  
UNIVERSAL FABRIC OF INDIANNESS,

SO DOES THE CUISINE.

WE, AT AIR-INDIA, HAVE ENDEAVOURED  
TO BRING YOU THE TRUE FLAVOUR OF  
INDIA, SERVED IN IMPECCABLE STYLE.

SO NO MATTER WHERE IN THE WORLD YOU MAY BE,  
THE AROMA OF INDIA WILL ALWAYS LINGER ON...



Next time you fly with us, remember  
you can customise your meal  
preference beforehand. Just log on to  
our website, at

[www.airindia.com](http://www.airindia.com)

and select from our menu offerings just  
what you would like to eat.

Air-India also offers special dietary  
meals if required.

We are always at your service.

## माँसाहारी

### मालासोल कॅविआर विशिष्ट क्षुधावर्धक

\*

ताज़ा मौसमी सलाद  
सलाद ड्रैसिंग

\*

लैम्ब क्लीअर सूप  
शतावरी क्रीम सूप

\*

### मेन कोर्स

ग्रिल्ड साल्मन - नींबू हर्ब सॉस

या

चिकन - सॉस

### और

भुने आलू

विशिष्ट शाक मक्खनी

या

चिकन करी लखनवी

### और

पुलाव

शाक मसाला

दाल

पराठा

### साथ में

दही पापड़ अचार चटनी

\*

विविध चीज़ ताज़े फल

\*

### मीठा

आइसक्रीम

चेस्टनट केक

\*

चाय कॉफ़ी  
कैफ़ीन मुक्त कॉफ़ी

\*

चॉकलेट

## Non-Vegetarian

### Malossol Caviar with Garnish Selected Hors d'oeuvre

\*

Fresh Seasonal Salad  
Dill and Lemon Juice Dressing  
Roquefort Dressing

\*

Lamb Clear Soup  
Cream of Asparagus Soup

\*

### The Main Course

Grilled Salmon Steak with Lemon Herb Sauce

or

Sauted Chicken with Madeira Sauce

### Served with

Chateau Potatoes

Bouquet of Vegetables

Or

Chicken Curry Lucknowi

(Succulent Boneless Chicken Pieces Cooked in Rich Gravy)

### Served with

Rice Pilaf

Spiced Vegetables

Dal

(Lentils Cooked and Tempered with Indian Spices)

Paratha

(Indian Flat Bread)

### Accompaniments

Yoghurt Papad Pickles Chutney

\*

Selection of Cheeses Seasonal Fresh Fruits

\*

### Dessert

Icecream

Chestnut Gateau

\*

Tea Coffee  
Caffeine Free Coffee

\*

Chocolate

[www.airindiacollector.com](http://www.airindiacollector.com)

